

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 22.09.2020 जनपद देवरिया

दिनांक 21.09.2020 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरुद्ध जनपद देवरिया मे अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में-

01.आबकारी अधिनियम के अंतर्गत:-

➔थाना बरहज पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त 01.भिक्खू चौहान पुत्र रघुवंशी सा0 तेलिया अफगान थाना बरहज, देवरिया। 02.तूफानी चौहान पुत्र दुक्खी सा0 पैना थाना बरहज, देवरिया गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10-10 लीटर कुल 20 लीटर अवैध नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 01.संतोष शर्मा पुत्र अम्बिका शर्मा सा0 मुराडीह थाना कोतवाली, देवरिया गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

02.थाना तरकुलवा पुलिस द्वारा दो व्यक्तियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया:-

दिनांक 21.08.2020 को थानाध्यक्ष तरकुलवा मय हमराही क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति ग्राम मुण्डेरा बाबू में राम जानकी मन्दिर के पास जुआ खेल रहे है यदि जल्दी किया जाय तो पकडा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम द्वारा बताये गये पते पर दबिस दिया गया जहाँ दो लोग पुलिस को देखकर भागने लगे जिन्हे पुलिस टीम द्वारा दौडाकर पकड लिया गया। पकडे गये व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर अपना नाम 01.धनन्जय पटेल पुत्र काशी नाथ सा0 मुण्डेरा थाना तरकुलवा, देवरिया। 02. बबलू खरवार पुत्र रामप्यारे सा0 उपरोक्त बताये व उनके कब्जे से तास के 52 पते व माल फड-82 रू0 व जामा तलाशी 390 रू0 नगद बरामद किया गया। इस सम्बन्ध मे थाना बरहज पर अपराध धारा 13 जुआ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही है।

03. निरोधात्मक कार्यवाही-

दिनांक 21.09.2020 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➔ जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 21 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

04. जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-

दिनांक 21.09.2020 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➔ वाहन चेकिंग के दौरान 227 वाहनों से 172800 रूपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।